Chapter – 6

वर्डप्रेस में पोस्ट को Add, Edit, Delete और publish कैसे करें

वर्डप्रेस में पोस्ट को Add, Edit, Delete और publish कैसे करें (How to Add, Edit, Delete and publish Post in WordPress)

इस पोस्ट में आप जानेगे की WordPress में नई Post को Create, edit, Preview, Delete और Publish कैसे करते है।

How to Adding new Post

- सबसे पहले WordPress Administration Screen (Dashboard) में log in करें।
- इसके बाद Post Tab पर क्लिक करें।
- दिखाई देने वाले Sub Tab में से Add New पर क्लिक करें।



• ऐसा करते ही आपको Add new post स्क्रीन दिखाई देगी। इस पेज के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं:

1 A My Blog O 1	♥ 0 + New	Howdy	Howdy, javaTpoint		
Deshboard	Add New Post	Screen Options *	Help 🔻		
🖈 Posts	Enter title here	Publish			
All Ponts Add New Categories Tags 95 Media	Q2 Add Media Visual b / Sck b-quote def ins img ul of 8 code more dose tags 3	Save Drah P Status: Draft Edg OD Visibility: Public Edg Drublich Immediately Edg	Preview		
 Pages Comments 		Categories	Publish		
Appearance Plugins Disers Tools Settings Collapse menu		All Categories Most Used blogss dothing Uncategorized Add.New Category			
	Word count: 0				

- Post Title इस क्षेत्र में अपनी Post का Title दर्ज करें। यह आपकी Post में सबसे ऊपर दिखाई देगा
- Post Content आप अपनी Post में Content को जोड़ने के लिए वर्डप्रेस WYSIWYG editor का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि इसमें दो टैब हैं – Visual (अपने text को format करने के लिए editor का उपयोग करें) और Text (सीधे अपना HTML कोड जोड़ें)।
- Preview यह बटन आपकी Post को Publish करने से पहले एक बार देखने की अन्मति देता है।

How to Edit Post

- Post edit करने के लिए, Post> All Post पर जाएं।
- यहाँ आपको सभी Created Post की लिस्ट दिखाई देगी। पोस्ट को edit करने के लिए अपने माउस को पोस्ट के ऊपर लाएँ, निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे।

Posts Add New				Screen Options *	Help *
All (3) Published (1) Drafts (2) Trash (1)					Search Posts
Bulk Actions Apply All dates All Categories	Filter				3 item:
Title	Author	Categories	Tags	P D	ate
hello — Draft Edit Quick Edit Trash Preview	javaTpoint	Uncategorized	-	- LL 2	ast Modified 016/09/22
ino title) — Draft	javaTpoint	Uncategorized	(73)	- Li 2	est Modified 016/09/21
Hello world!	javaTpoint	Uncategorized	-	(D) P	ublished 016/09/12
Totle	Author	Categories	Tags	P D	ate
Bulk Actions Apply					3 items

- Edit करने के लिए दो विकल्प हैं। पहला Edit और दूसरा Quick Edit
- Edit पर क्लिक करने पर, एक page दिखाई देगा।
- यहां आप अपनी पोस्ट का Title या Content Edit कर सकते हैं।
- Quick edit पर क्लिक करने पर, निम्न पेज दिखाई देगा।

Posts Add New				Screen Option	s 🔻 Help 🔻
All (3) Published (1) Drafts (2) Trash (1)					Search Posts
Bulk Actions Apply All dates All Categories	Filter				3 items
Trile	Author	Categories	Tags		Date
QUICK EDIT	Categories	Togs			
Tale hello	0/001E				
Skip	clothing				
Dotr 09-Sep • 22 2016 @ 04 45	Vncategorized	Allow	Comments 📝 Allow Piny	pi	
Password -OR- Arivate		Status D	raft 🔹 🗖	Moke this post sticky	
					-
Canoel					Update
(no title) — Draft	javaTpoint	Uncategorized	-	-	Last Modified 2016/09/21
Hello world!	javaTpoint	Uncategorized	-	Ģ	Published 2016/09/12
Title	Author	Categories	Tags		Date
Bulk Actions Apply					3 items

 यहां आप अपनी पोस्ट का Title, Date और Slug edit कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो अपने पोस्ट के लिए Categories भी बदल सकते हैं।

How to Deleting a Post

- Post Delete करने के लिए, Post> All Post पर जाएं|
- यहाँ आपको सभी Created Post की लिस्ट दिखाई देगी। पोस्ट को Delete करने के लिए अपने माउस को उस पोस्ट के ऊपर लाएँ जिसे आप डिलीट करना चाहते है|
- पोस्ट को Delete करने के लिए Trash आप्शन पर पर क्लिक करे

Posts Add New				Screen Op	tions * Help *
All (3) Published (1) Drafts (2) Trash (1)					Search Posts
Bulk Actions Apply All dates All Categories Filter					3 items
Trile	Author	Categories	Tags		Date
bello Draft	javaTpoint	Uncategorized	-	-	Last Modified 2016/09/22
(no title) — Draft Edit Quick Edit Trash	javaTpoint	Uncategorized	-	-	Last Modified 2016/09/21
Hello world!	javaTpoint	Uncategorized	1990) 1990)	Ģ	Published 2016/09/12
Title	Author	Categories	Tags		Date
Bulk Actions Apply					3 item

How to Preview Post

- Preview विकल्प आपको इसे Public करने से पहले आपकी पोस्ट देखने में मदद करता है।
- Post> All Post पर जाएं
- यहाँ आपको सभी Created Post की लिस्ट दिखाई देगी। पोस्ट को Preview करने के लिए अपने माउस को उस पोस्ट के ऊपर लाएँ जिसे आप Preview करना चाहते है
- यह हमारी पोस्ट का Preview है। यहाँ आप विचार कर सकते है की क्या आपके पोस्ट को एडिट की जरूरत है या नहीं।

				Search Posts
				arterior c apro
				3 items
uthor	Categories	Tags		Date
waTpoint	Uncategorized	-	<u></u>	Last Modified 2016/09/22
waTpoint	Uncategorized	<u>=</u> 2	2	Last Modified 2016/09/21
waTpoint	Uncategorized	-	Ø	Published 2016/09/12
uthor	Categories	Tags		Date
	uthor vaTpoint vaTpoint vaTpoint uthor	uthor Categories vaTpoint Uncategorized vaTpoint Uncategorized vaTpoint Uncategorized uthor Categories	uthor Categories Tags vaTpoint Uncategorized — vaTpoint Uncategorized — vaTpoint Uncategorized — uthor Categories Tags	uthor Categories Tags vaTpoint Uncategorized - vaTpoint Uncategorized - vaTpoint Uncategorized - vaTpoint Categories Tags

How to Publish Post

- Post में Content इंटर करने के बाद इसे Publish करना होगा। Publish बटन से आप अपनी पोस्ट को अपने दर्शकों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं।
- Post > Add New पर जाएं|
- अपनी पोस्ट लिखने के बाद Publish बटन पर क्लिक करें। अब आपकी पोस्ट को Publish किया जाएगा।

Add New Post	Screen Options *	Help ¥
hello	Publish	
Permalink: http://localhost/wordpress/2016/09/22/hello/ Eds Q1 Add Media Visual Text B I \ll \equiv \equiv \mathscr{O} Ξ \boxtimes \times You can use commas, apostrophes, quotes, hyphens/dashes and other typical symbols in the post like Number of the post like X	Save Draft P Status: Draft Edit Visibility: Public Edit Publish immediately Edit Move to Trash	Preview Publish
	Categories All Categories Most Used blogss clothing Uncategorized	

- Publish Section में कुछ अन्य विकल्प उपलब्ध हैं।
 - Preview Post/Preview- इसे Publish करने से पहले आप अपनी Post का Preview देख सकते है|
 - Permalink इसका पूरा नाम permanent link है। इसमें Post शीर्षक से प्राप्त उपयोगकर्ता के अनुकूल Post नाम शामिल है। इसे "संपादित करें" बटन का उपयोग करके संपादित किया जा सकता है।
 - Save Draft यहाँ आप अपनी Post को सेव कर सकते है|
 - Status यहाँ आप अपनी Post की Status को Pending and Draft में डाल सकते है|
 - Visibility यहाँ आप Public, Password protected और Private के लिए Visibility बदल सकते है|

• Publish – यहाँ आप Post Publish की Date and Time बदल सकते है|